



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03122024-259106  
CG-DL-E-03122024-259106

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)  
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 3, 2024/ अग्रहायण 12, 1946

No. 196]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 3, 2024/AGRAHAYANA 12, 1946

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2024

आ. अ. 207(अ).— यतः, ओडिशा राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा में निर्वाचित श्री सुजीत कुमार का स्थान जिनकी पदावधि 02.04.2026 सहित उस तारीख तक थी, के समाप्त होने से पूर्व उनके त्यागपत्र देने के कारण 06.09.2024 से रिक्त हो गया है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराना है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 147, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा-

(अ) ओडिशा राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 24 दिसम्बर 2024 से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्विनिर्माण बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में:-

(क) नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख – 10 दिसम्बर 2024 (मंगलवार);

(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख – 11 दिसम्बर 2024 (बुधवार);

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख – 13 दिसम्बर 2024 (शुक्रवार);

- (घ) वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा – 20 दिसम्बर 2024 (शुक्रवार); और
- (ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा – 24 दिसम्बर 2024 (मंगलवार); नियत करता है; और
- (इ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

[फा.सं.- 100/रा.स.-ओडिशा/17/2024 (1)]

आदेश से,

सुमन कुमार दास, सचिव

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2024

**O. N. 207 (E).**— WHEREAS, the seat of Shri Sujeet Kumar, in the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of Odisha, has become vacant on 06.09.2024 by the reason of his resignation, before the expiration of his term of office which was up to and including 02.04.2026; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 147, sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby-

- (A) **calls upon** the elected members of the Legislative Assembly of Odisha to elect, before 24<sup>th</sup> December, 2024 and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States;
- (B) **appoints**, with respect to the said election;
- the 10<sup>th</sup> December, 2024 (Tuesday), as the last date for making nominations;
  - the 11<sup>th</sup> December, 2024 (Wednesday), as the date for the scrutiny of the nominations;
  - the 13<sup>th</sup> December, 2024 (Friday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
  - the 20<sup>th</sup> December, 2024 (Friday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
  - the 24<sup>th</sup> December, 2024 (Tuesday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) **fixes the hours** from **09:00 am to 04:00 pm**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

[F.No.- 100/CS-OD/17/2024 (1)]

By order,

SUMAN KUMAR DAS, Secy.